

## माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु

माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु  
हर पल माँ का शुकर मनाऊ,  
माँ की महिमा केहता हु  
माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु

माँ के नाम से नाम है मेरा माँ से ही पहचान है  
कंकर से मुझे हीरा बनाया ये माँ का एहसान है  
माँ की नाम की पावन धारा के संग संग में बेहता हु  
माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु

जन्म जन्म गुण गान करूँ मैं बस इतना वरदान दो  
मैं अज्ञानी कुछ न जानू मुझको दया का दान दो  
हाथ जोड़ कर करूँ विनती सिर झुका कर केहता हु  
माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु

कमी नहीं फिर कोई आई जब से माँ का दास हुआ  
टूटी आस संदीप न कोई पूरण हर विश्वास हुआ  
चाहो तो ये खुद अजमा लो सची बात मैं केहता हु  
माँ की धुन में रेहता हु जय माँ जय माँ केहता हु

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/18361/title/maa-ki-dhun-me-rehta-hu-jai-maa-jai-maa-kehta-hu>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |